



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 685) पटना, सोमवार, 24 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचना
24 दिसम्बर 2012

सं0 एल०जी०-1-21/2012/लेज : 432—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम जिसपर राज्यपाल दिनांक 22 दिसम्बर 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

[बिहार अधिनियम 19, 2012]

बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010) अधिनियम, 2012

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य में तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम । — यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 15,85,23,783 33,45,89,221, 26,02,32,302 32,89,89,747 3,79,77,164 14,82,37,774 2,26,53,54,732 78,56,14,752 5,48,33,123 45,71,43,271 98,37,47,000 रुपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि जो कुल मिलाकर 5,81,52,42,869 (पाँच अरब इक्कासी करोड़ बावन लाख बयालिस हजार आठ सौ उनहत्तर) रुपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले

अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।

3. विनियोग ।— इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा ।

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1978-79				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	श्रम और रोजगार	—	158523783		158523783
		कुल		158523783		158523783

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1979-80				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	श्रम और रोजगार	—	334589221		334589221
		कुल		334589221		334589221

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1980—81				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	श्रम और रोजगार	—	153845052		153845052
2	12	लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन	—	106387250		106387250
		कुल		260232302		260232302

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1981—82				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	श्रम और रोजगार	—	250632540		250632540
2	12	लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन	—	78357207		78357207
		कुल		328989747		328989747

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1982-83				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	12	लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन	—	37977164		37977164
		कुल		37977164		37977164

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1985-86				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	13	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	—	147834402		147834402
2	10	पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	—	403372		403372
		कुल		148237774		148237774

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1987-88				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	—	2265354732		2265354732
		कुल		2265354732		2265354732

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1988-89				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	—	785614752		785614752
		कुल		785614752		785614752

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 1992-93				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	—	54833123		54833123
		कुल		54833123		54833123

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 2008-09				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	15	पेंशन	राजस्व	457143271		457143271
		कुल		457143271		457143271

अनुसूची						
(देखें धाराएं 2 एवं 3)						
वित्तीय वर्ष 2009-10				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	14	ऋण की वापसी अदायगी	पूंजी		983747000	983747000
		कुल			983747000	983747000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 685-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>